



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693 ]  
No. 693]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 1, 2002/श्रावण 10, 1924  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2002/SRAVANA 10, 1924

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2002

आय-कर

का.आ. 817( अ ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 17 के खंड (2) और धारा 192 की उपधारा (2ग) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (उन्नीसवीं संशोधन) नियम, 2002 है।  
(2) ये 1 अप्रैल, 2001 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- आय-कर नियम, 1962 के नियम 3 में,—  
(क) उप नियम (6) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
“परन्तु यह कि इस उप नियम में अन्तर्विष्ट कोई बात रेल के कर्मचारियों को लागू नहीं होगी।”;  
(ख) उप नियम (9) के, दूसरे परन्तुक में “या रेल” शब्दों का लोप किया जाएगा।

[ अधिसूचना सं. 197/2002/फा. सं. 149/15/2002-टीपीएल ]

डॉ. धीरज भटनागर, निदेशक

पाद टिप्पणी :—मूल नियम अधिसूचना का.आ. 969 तारीख 26-3-1962 के अधीन प्रकाशित किए गए थे जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है, अन्तिम बार ऐसा संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 151(अ) दिनांक 4-2-2002 को किया गया था।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

आय-कर नियम, 1962 के नियम 3 में संशोधन रेल के कर्मचारियों के फायदे के लिए है और इसलिए, ऐसे निर्धारितियों पर जो रेल के कर्मचारी हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है।

**MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st August, 2002

**INCOME-TAX**

**S.O. 817(E).**—In exercise of powers conferred by Section 295, read with clause (2) of Section 17 and Sub-section (2C) of Section 192 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (19th Amendment) Rules, 2002.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2001.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 3,—

(a) in Sub-rule (6), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that nothing contained in this Sub-rule shall apply to the employees of the Railways.”;

(b) in Sub-rule (9), in the second proviso, the words “or the Railways” shall be omitted.

[Notification No 197/2002/F. No. 149/15/2002-TPL]

Dr. DHEERAJ BHATNAGAR, Director

**Footnote :—**The principal rules were published under Notification No S.O. 969 dated 26-3-1962 which has been amended from time to time, the last such amendment was made vide notification No. S.O. 151(E) dated 4-2-2002.

**EXPLANATORY MEMORANDUM**

The amendment in Rule 3 is for the benefit of Railway employees and therefore not prejudicial to the assesses, who are Railway employees.